



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 अग्रहायण 1933 (श0)
(सं0 पटना 672) पटना, बुधवार, 23 नवम्बर 2011

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

16 नवम्बर 2011

सं0 3/एम-75/2008 सां-3468—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।—(1) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति तक होगा जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियम विधायी शक्तियों के अध्वधीन हो।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-12 के बाद नया नियम-12-क जोड़ा जाना ।— उक्त नियमावली के नियम- 12 के बाद एक नया नियम 12-क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा—

“12-क. प्रत्येक सरकारी सेवक, अपने ऊपर सौंपे गये कर्तव्यों के सदभावपूर्वक पालन के प्रयोजनार्थ जनता में से किसी को या किसी संस्था को पूर्ण एवं सही जानकारी, जिसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया जा सकता हो, का संसूचन करेगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रावधानों का यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जायेगा कि किसी वर्गीकृत सूचना का किसी अप्राधिकृत रूप में अथवा किसी सरकारी सेवक या अन्य को अनुचित लाभ के लिए संसूचन की अनुमति दी गई है।”

3. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-14 के उप-नियम (2), उप-नियम (3) एवं उप-नियम (4) में संशोधन ।—

उक्त नियमावली के नियम-14 में जहाँ-जहाँ अंकों एवं शब्दों में क्रमशः “500 रु० (पाँच सौ)”, “200 रु० (दो सौ रुपये)”, “75 रु० (पचहत्तर रुपये)” एवं “25 रु० (पच्चीस रुपये)” का प्रयोग हुआ है वहाँ-वहाँ उसे अंकों एवं शब्दों क्रमशः “15000 रु० (पन्द्रह हजार रुपये)”, “6000 रु० (छह हजार रुपये)”, “3000 रु० (तीन हजार रुपये)” एवं “1000 रु० (एक हजार रुपये)” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 में संशोधन ।—

(i) उक्त नियमावली के नियम-19 के उप-नियम (1) में शब्द समूहों 'हरेक बारह मासों के अंतराल पर' के बाद और शब्द-समूहों "अपनी आस्तियों एवं दायित्वों" के पूर्व, शब्द-समूहों "अर्थात् 31 दिसम्बर के बाद 28/29 फरवरी तक" को अंतःस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त नियमावली के नियम-19 के उप-नियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"(3) प्रत्येक सरकारी सेवक, सभी ऐसे संव्यवहार के संबंध में, जिसका मूल्य सरकारी सेवक के दो माहों के मूल वेतन जोड़ ग्रेड-वेतन से अधिक हो, ऐसे संव्यवहार के पूर्ण होने के एक माह के अन्दर सरकार को जानकारी देगा;

परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई संव्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो तो सरकार की पूर्व मंजूरी ली जायेगी।"

(iii) उक्त नियमावली के नियम-19 के उप-नियम (1) की टिप्पणी (2) तथा उप-नियम (5) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में अंक एवं शब्द "1000 रु० (एक हजार रुपये)" को अंक एवं शब्दों "30,000 रु० (तीस हजार रुपये)" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) उक्त नियमावली के नियम 19 के उप-नियम (7) के बाद निम्नलिखित एक नया उप-नियम (8) जोड़ा जाएगा-

"(8) वांछित विवरणी समय पर नहीं समर्पित करने वाले सरकारी सेवक का वेतन भुगतान, सरकार या विहित प्राधिकारी विवरणी समर्पित करने तक रोक सकेंगे। समय पर विवरणी नहीं समर्पित किया जाना, अपने सरकारी कर्तव्य पालन में गम्भीर कदाचार माना जाएगा जिसके लिए वह विभागीय कार्यवाही का दायी होगा।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

16 नवम्बर 2011

सं० 3/एम-75/2008 सा०-3469/ अधिसूचना संख्या 3468, दिनांक 16 नवम्बर 2011 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 16th November 2011

No. 3/M-75/2008-3468—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 to the constitution of India, The Governor of Bihar is pleased to make following Rules to amend the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976 –

1. *Short title, extent & commencement.*— (1) These Rules may be called "Bihar Government Servant Conduct (Amendment) Rules, 2011.

(2) These Rules shall apply to every person appointed to a Civil Service or post in connection with the affairs of the state of Bihar and who are subject to Rules making powers of the Government.

(3) It shall come into force at once.

2. *Addition of a new Rule 12-A after Rule-12 of Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976*—In the said Rules, after rule-12, the following new rule 12-A shall be added—

"12-A". Every Government servant shall, in performance of this duties in good faith communicate to a member of public or any organization full and accurate information, which can be disclosed under the Right to Information Act, 2005.

Explanation.—"Nothing in this rule shall be considered as permitting communication of classified information in an unauthorized manner or for improper gains to a Government servant or others."

3. *Amendment in sub-rule(2), sub-rule(3) and sub-rule(4) of Rule-14 of the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976.*—In the said Rules, in rule 14 wherever the figures and words as "Rs. 500 (Five hundred)", "Rs. 200 (Two hundred)", "Rs. 75 (Seventy five)" and "Rs. 25 (Twenty five)", respectively been used, shall be substituted

by the figures and words “Rs. 15,000 (Fifteen thousand)”, “Rs. 6,000 (Six thousand)”, “Rs. 3,000 (Three thousand)” and “Rs. 1,000 (One thousand)”, respectively.

4. *Amendment in rule 19 of the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976.—*

- (i) In said Rules, in sub-rule (1) of rule-19, after the group of words “at the interval of every twelve months” and before the group of words “submit to the”, the group of words, i.e. after 31st December till 28/29th February,” shall be inserted.
- (ii) In the said Rules, sub-rule (3) of rule 19 shall be substituted by the following:-
“(3) Every government servant shall intimate the Government in respect of each transaction, whose value exceeds two months basic pay plus grade pay of the government servant within a month of the completion of such transaction;
Provided that, the previous sanction of the Government shall be obtained if any such transaction is to be done with a person having official dealings with a government servant.”
- (iii) In the said Rule, in the note-(II) of sub-rule (1) and part (a) of the explanation of sub-rule(5) of Rule 19 the figure and word Rs. 1000 (One thousand) shall be substituted by the figure and word ` 30,000(Thirty thousand).
- (iv) *In the said rule the following new sub-rule (8) will be added after sub-rule(7)—*
“(8) The Government or the prescribed authority may stop the salary of the Government Servant not submitting the required return on time till he/she submits the return. Not submitting the return on time will be construed as grave misconduct in discharge of his/her duty for which he/she will be liable for departmental proceedings.”

By order of the Governor of Bihar,
NAVIN CHANDRA JHA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 672-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>